


विशेष रिपोर्ट

बुलियन


(अप्रैल 2023)



Moneywise. Be wise.



स्रोत: एसएमसी रिसर्च एंव रॉयटर्स



स्रोत: एसएमसी रिसर्च एंव रॉयटर्स


जून 2021 के बाद से फरवरी में सबसे बड़ी मासिक गिरावट के बाद कॉमेक्स पर मार्च में सोने की कीमतों में 8% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। सोने की कीमतों में लगातार दूसरी तिमाही में वृद्धि दर्ज की गई, जो 2020 की दूसरी तिमाही के बाद से सबसे अधिक तिमाही बढ़त है, क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि की गति को धीमा करने की बढ़ती संभावना ने निवेशकों को सोने की ओर आकर्षित किया। मार्च में सोने की कीमतें 150 डॉलर बढ़ी है-जो जुलाई 2020 के बाद इसका सबसे अच्छा महीना है। हाल ही में वैश्विक स्तर पर बैंकिंग उथल-पुथल के कारण यह आशंका जतायी गई कि फेड अपने दर वृद्धि के आउटलुक को कम करेगा। फेड ने संकेत दिया कि वह उधार लेने की लागत में फिर से वृद्धि करने पर रोक लगाने की स्थिति में आ गया है, जिससे गैर-यौलड देने वाले सोने की मांग बढ़ जाती है। भौतिक स्तर पर, फरवरी में हांगकांग के माध्यम से चीन में सोने का शुद्ध आयात पिछले महीने की तुलना में लगभग तीन गुना हो गया। कॉमेक्स में चांदी की कीमतों ने सोने की तुलना में लगभग 15% की बढ़त और एमसीएक्स में 13% की बढ़त के साथ बेहतर प्रदर्शन किया, क्योंकि चांदी की कीमतों सोने और बेस मेटल में तेजी का दोहरा समर्थन मिला है।

आउटलुक

- अप्रैल में, सोने और चांदी की कीमतों में अधिक अस्थिरता के साथ कारोबार जारी रह सकता है।
- मिनियापोलिस फेड के अध्यक्ष नील काशकारी ने कहा कि हाल के बैंकिंग क्षेत्र के तनाव और इसके बाद क्रेडिट संकट की संभावना ने अमेरिका को मंदी के करीब ला दिया है। लेकिन अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अधिकारियों ने कहा कि ऐसा कोई संकेत नहीं है कि वित्तीय तनाव बिगड़ रहा है।
- कुछ हद तक मजबूत डॉलर और इक्विटी बाजारों में उछाल और जोखिम लेने की क्षमता शायद सोने की मांग को कम कर सकती है, लेकिन बुलियन को बड़े आर्थिक कारकों से निरंतर समर्थन मिलने की संभावना है।
- अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने पिछले महीने अपेक्षित 25 बेसिस प्वाइंट की दरों में वृद्धि की, लेकिन इसके नीतिगत बयान में अब यह नहीं कहा गया है कि चल रही वृद्धि उचित होगी, जो इसके रुख में स्पष्ट बदलाव का संकेत है।
- यह स्पष्ट नहीं है कि बैंकिंग क्षेत्र में अस्थिरता खत्म हो गई है या नहीं। बार्कलेज ने चेतावनी दी कि बैंकिंग संकट अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि डिपॉजिट आउटफ्लो की दूसरी लहर आ रही है।
- आर्थिक स्थितियां और भी बदतर होंगी क्योंकि उपभोक्ताओं को फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति के सख्त होने के प्रभावों को महसूस करने में 12 महीने तक का समय लग सकता है। जबकि ब्याज दरें, 5% पर, अभी भी ऐतिहासिक स्तरों की तुलना में अपेक्षाकृत कम हैं, परिवर्तन की दर अभूतपूर्व रही है।
- इस बीच, सोने के ईटीएफ की होल्डिंग में पिछले साल की अहम कमी के बाद अब बढ़ोतरी हो रही है। पिछले दो हफ्तों में ईटीएफ की शुद्ध खरीद 36 टन हुई है।




अप्रैल में सोने की कीमतें 55000-61000 के दायरे में कारोबार कर सकती है और चांदी की कीमतों में भी भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है और कीमतें 67000-77000 के दायरे में कारोबार हो सकती है। कोमेक्स पर सोने की कीमतें 1950-2050 डॉलर के दायरे में और चांदी की कीमतें 23.50-26.50 डॉलर के दायरे में कारोबार कर सकती है। कीमतों में गिरावट के बाद खरीददारी सबसे उचित रणनीति है।



स्रोत: रॉयटर्स

कॉमेक्स में सोने-चांदी की कीमतों का अनुपात



स्रोत: रॉयटर्स

एनॉलिसिस: मार्च में सोने-चांदी का अनुपात 88 से कम होकर 88 हो गया क्योंकि सोने की तुलना में चांदी की कीमतों ने बेहतर प्रदर्शन किया। अप्रैल में अब यह अनुपात अगस्त में 79-97 के दायरे में रह सकता है।

एसपीडीआर ट्रस्ट में सोने की होल्डिंग की कीमत



स्रोत: goldprice.org

एनॉलिसिस: एसपीडीआर सोने की कीमते नवम्बर 2022 के बाद से बढ़ना शुरू हुई है लेकिन फरवरी 2023 में इसकी बढ़त पर रोक लग गई। मार्च में कीमतें फिर से 186 के उच्च स्तर पर पहुंच गईं। अब निकट भविष्य में 172-190 के दायरे में रह सकती है।

SMC COMMODITY RESEARCH DESK



Corporate Office:
11/6B, Shanti Chamber,
Pusa Road, New Delhi - 110005
Tel: +91-11-30111000
www.smcindiaonline.com

Mumbai Office:
Lotus Corporate Park, A Wing 401/402,
4th Floor, Graham Firth Steel Compound,
Off Western Express Highway, Jay Coach
Signal, Goreagon (East) Mumbai - 400063
Tel: 91-22-67341600,
Fax: 91-22-67341697

Kolkata Office:
18, Rabindra Sarani, Poddar Court,
Gate No-4, 5th Floor, Kolkata-700011
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

SMC Global Securities Ltd. (hereinafter referred to as "SMC") is regulated by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and is licensed to carry on the business of broking, depository services and related activities. SMC is a registered member of National Stock Exchange of India Limited, Bombay Stock Exchange Limited, MSEI (Metropolitan Stock Exchange of India Ltd.) and M/s SMC Comtrade Ltd is a registered member of National Commodity and Derivative Exchange Limited and Multi Commodity Exchanges of India and other commodity exchanges in India. SMC is also registered as a Depository Participant with CDSL and NSDL. SMC's other associates are registered as Merchant Bankers, Portfolio Managers, NBFC with SEBI and Reserve Bank of India. It also has registration with AMFI as a Mutual Fund Distributor.

SMC is a SEBI registered Research Analyst having registration number INH100001849. SMC or its associates has not been debarred/ suspended by SEBI or any other regulatory authority for accessing/dealing in securities/commodities market.

The views expressed by the Research Analyst in this Report are based solely on information available publicly available/internal data/ other reliable sources believed to be true. SMC does not represent/ provide any warranty expressly or impliedly to the accuracy, contents or views expressed herein and investors are advised to independently evaluate the market conditions/risks involved before making any investment decision. The research analysts who have prepared this Report hereby certify that the views /opinions expressed in this Report are their personal independent views/opinions in respect of the subject commodity.

DISCLAIMER: This Research Report is for the personal information of the authorized recipient and doesn't construe to be any investment, legal or taxation advice to the investor. It is only for private circulation and use. The Research Report is based upon information that we consider reliable, but we do not represent that it is accurate or complete, and it should not be relied upon as such. No action is solicited on the basis of the contents of this Research Report. The Research Report should not be reproduced or redistributed to any other person(s) in any form without prior written permission of the SMC. The contents of this material are general and are neither comprehensive nor inclusive. Neither SMC nor any of its affiliates, associates, representatives, directors or employees shall be responsible for any loss or damage that may arise to any person due to any action taken on the basis of this Research Report. It does not constitute personal recommendations or take into account the particular investment objectives, financial situations or needs of an individual client or a corporate/s or any entity/s. All investments involve risk and past performance doesn't guarantee future results. The value of, and income from investments may vary because of the changes in the macro and micro factors given at a certain period of time. The person should use his/her own judgment while taking investment decisions.

Please note that SMC its affiliates, Research Analyst, officers, directors, and employees, including persons involved in the preparation or issuance if this Research Report: (a) from time to time, may have long or short positions in, and buy or sell the commodity thereof, mentioned here in or (b) be engaged in any other transaction involving such commodities and earn brokerage or other compensation or act as a market maker in the commodities discussed herein(c) may have any other potential conflict of interest with respect to any recommendation and related information and opinions. All disputes shall be subject to the exclusive jurisdiction of Delhi High court. All disputes shall be subject to the exclusive jurisdiction of Delhi High court.